



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 1979/पौष 19, 1900

No. 13]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 1979/PAUSA 19, 1900

इस भाग में जिस पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1979

सीमा शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 9th January, 1979

CUSTOMS

सांकां० 21(ख).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएं, अर्थात् :—

उक्त द्वितीय अनुसूची में, शीर्ष सं० 16 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

| शीर्ष सं० | वस्तुओं का वर्णन | शुल्क की दर |
|------------------|------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| " 16. कच्ची कपास | | 2500 रु० प्रति टन"। |

[सं० 11/फा०सं०एस० 23/78-टी मार
यू (सी-शु०)]

G.S.R. 21(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby directs that the following further amendment be made in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the said Second Schedule, for Heading No. 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

| Heading No. | Description of articles | Rate of duty |
|-----------------|-------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| "16. Raw cotton | | Rs. 2500 per tonne." |

[No. 11/F. No. S. 23/78-TRU (Cus)]

सांकां.नि० 22(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा, (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं० 16 के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपावृत्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माप को, जब उनका निर्यात भारत से किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उपवृत्तीय सीमा शुल्क के उनमें भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क को वर से अधिक है।

सारणी

| क्रम सं० | वस्तुओं का वर्णन | शुल्क की दर |
|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | निम्नलिखित के नाम से ज्ञात कच्ची कपास का किस्म — | |
| (क) असम कोमिला कपास | 550 रु० प्रति टन | कुछ नहीं |
| (ख) पीला गूदड़ तथा जोड़ा कपास (अर्थात् तीसरी बिनाई की कपास तथा जो कातने योग्य न हो) | | |
| (ग) कपास का गूदड़ और झाड़न जो देश में किसी भी व्यावहारिक प्रयोग की न हो | | |
| 2. | कच्ची कपास जिसके रेशे की लम्बाई 24.5 मिलिमीटर और उससे अधिक हो | कुछ नहीं |
| 3. | बंगाल देशों नामक किस्म को छोड़कर, अन्य सभी किस्मों की कच्ची कपास | 1000 रु० प्रति टन |

[सं० 12/फा०सं० ए० 23/78-टी आर यू (सीमा शुल्क)]

G.S.R. 22(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (2) of the Table annexed hereto and falling under Heading No. 16 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Second Schedule as is in excess of the duty leviable thereon at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

| Sl. No. | Description of goods | Rate of duty |
|---------|--|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Raw cotton of the varieties known as— | |
| | (a) Assam/Comilla Cotton | Rs. 550 per tonne |
| | (b) Yellow pickings and zoda cotton (that is, cotton of third picking and of unspinnable quality). | |
| | (c) Pickings and sweepings of cotton of no practical use in the country | |
| 2. | Raw cotton having a staple length of 24.5 millimeters and above | Nil |
| 3. | All other varieties of raw cotton excepting the variety known as Bengal Deshi. | Rs. 1000 per tonne. |

[No. 12/F. No. S. 23/78-TRU(Cus)]

सांकां.नि० 23(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विध्वस्त करती है, अर्थात् :—

1. सं० 336—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976,
2. सं० 337—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976,
3. सं० 338—सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976.

[सं० 13/फा०सं० ए० 23/78 टी आर यू (सी०शु०)]

जोसेफ डोमिनिक, अवर सचिव

G.S.R. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, namely :—

1. No. 336-Customs, dated the 2nd August 1976,
2. No. 337-Customs, dated the 2nd August 1976,
3. No. 338-Customs, dated the 2nd August 1976.

[No. 13/F. No. S. 23/78-TRU (Cus.)]
JOSEPH DOMINIC, Under Secy.